

राज्यपाल ने किया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र का उद्घाटन

लखनऊ: 11 नवम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर लखनऊ डॉ० दिनेश शर्मा, कुलपति प्रो० एस०बी० निमसे, प्रति कुलपति श्री यू०एन० द्विवेदी, ओएनजीसी के प्रबंध निदेशक श्री एम०के० वर्मा, निदेशक श्री जी०सी० मिश्रा सहित विश्वविद्यालय के शिक्षणगण व छात्रगण भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कुलपति प्रो० एस०बी० निमसे का कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा उनके कार्यकाल की प्रशंसा की।

राज्यपाल ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र का निर्माण समय से पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में उन्हें यह देखने का मौका मिला है कि कई बार किन्हीं कारणों से सरकारी काम समय पर पूरा नहीं होता है। समय से काम पूरा होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन केन्द्र का शिलान्यास एवं उद्घाटन उन्हें करने का अवसर मिला है। यह सुखद संयोग है कि आज ही देश पहले शिक्षा मंत्री मौलान अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस भी है और आज ही अध्ययन केन्द्र का उद्घाटन किया जा रहा है। मौलान अबुल कलाम आजाद ने स्वतंत्र भारत में शिक्षा की नींव डालने का काम किया।

श्री नाईक ने कहा कि विश्वविद्यालय का काम दो प्रकार का होता है। पहला प्रशासनिक कार्य तथा दूसरा अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसंधान का कार्य होता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की उच्च के क्षेत्र में कुछ कमियाँ हैं। ऐसे में शोध का बहुत महत्व होता है। शोध के लिए गहराई से अध्ययन करने और अनुकूल वातावरण की भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में अध्ययन केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रेरणा प्राप्त करके प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसा वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आयेगा।

राज्यपाल ने अपने पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए ओएनजीसी द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ओएनजीसी ने उस समय 9 हजार करोड़ की लागत से रूस में भारत के पहले महत्वाकांक्षी परिकल्प की शुरुआत की थी। इसके साथ-साथ ओएनजीसी ने महाराष्ट्र के अर्नाला द्वीप में बिजली पहुँचाने का सामाजिक कार्य किया था जो वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी के सहयोग से आज लखनऊ विश्वविद्यालय में आज अध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई है जिसके लिए संस्था बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी ने देश के विकास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

कार्यक्रम में राज्यपाल सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे।





